

अकाल और उसके बाद

Worksheet-II (09.11.2020)

सूचना: 'अकाल और उसके बाद' कविता का यह अंश पढ़े और प्रश्नों के उत्तर लिखें।

दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद
धुआँ उठा घर के अंदर कई दिनों के बाद
चमक उठीं घर भर की आँखें कई दिनों के बाद
कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद।

1. समानार्थी शब्द कवितांश से चुनकर लिखें।

शब्द	समानार्थक शब्द
• दाना	भीतर
• अंदर	नयन
• आँख	गृह
• कौआ	पर
• पाँख	अनाज
• घर	काक

2. इन पंक्तियों में किस समय का वर्णन है?

(क) अकाल का (ख) अकाल के पहले का (ग) अकाल के बाद का

3. आँखें चमक उठीं - से तात्पर्य है -

(क) घर के सभी बीमार हो गए। (ख) घर के सभी बेसहारे हो गए।

(ग) घर के सभी दुखी हो गए। (घ) घर के सभी संतुष्ट हो गए।

4. कई दिनों के बाद घर में अनाज आया। - यह आशयवाली पंक्ति चुनकर लिखें।

5. आँगन से ऊपर धुआँ कब उठता है?

(क) खाना खाने पर (ख) खाना न पकने पर (ग) खाना पकाने पर

6. 'घर भर की आँखें' कवि के अनुसार यहाँ घर के सदस्य कौन-कौन हैं?

7. कवितांश के आधार पर सही मिलान करें।

• घर के अंदर	पाँखें खुजलाई
• कौए ने	चमक उठीं
• घर भर की आँखें	दाने आए

arjunsivaram.k@gmail.com

8. नमूने के अनुसार पोस्टर तैयार करें।

नमूना : भोजन के दुर्व्यय के विरुद्ध पोस्टर।

"भोजन है जीवन, अन्न ही है भगवान्।"

"खाने की बर्बादी न करें,
बचे हुए भोजन का सदुपयोग करें।"



बचा हुआ अच्छा भोजन
ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ।

भोजन का दुर्व्यय
सबसे बड़ा पाप है जीवन में,
इसलिए जितनी हो भूख
उतना ही भोजन थाली में।

arjunsivaram.k@gmail.com

✎ प्रश्न : 'खेती नहीं तो खाना नहीं' - खेती के विकास की आवश्यकता का संदेश देते हुए पोस्टर तैयार करें।